SPACE INCUBATRICS TECHNOLOGIES LIMITED

Regd. Office: Pawan Puri, Muradnagar, Ghaziabad-201206 (U.P.) CIN: L17100UP2016PLC084473

E-mail-spaceincubatrics@gmail.com, Web: www.spaceincubatrics.com, Phone: 01232-261288

Date: 15.08.2023

The Manager Department of Corporate Relationship Bombay Stock Exchange Limited PhirozeJeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai- 400 001

> Scrip Code: 541890 Scrip ID: SPACEINCUBA

SUB: Newspaper Cuttings of Publication of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Result for the Ouarter Ended 30th June, 2023

Dear Sir.

Please find enclosed copy of Newspaper Cutting of Publication of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2023 Pursuant to Regulation 47(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as published in:

- A. Financial Express dated 15.08.2023 (English Daily)
- B. Jansatta dated 15.08.2023 (Hindi Daily)

Please take on record.

Thanking you,

Yours faithfully FOR SPACE INCUBATRICS TECHNOLOGIES LIMITED

Khushbu Singhal (Company Secretary & Compliance Officer) Membership No.: A25992

Encl: as above

FINANCIAL EXPRESS

FORTUNE INTERNATIONAL LTD CIN: L52324DL1981PLC012033

Regd. Office: G-4, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi-110028 E- Mail ID for investors: rekha.srivastava2016@gmail.com, Tel: 011-25774212-214

Extract of Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2023

Particulars	Quarter ended	Quarter	Quarter	. Voon die		_		
	30.06.2023 (Unaudited)		ended	Year ended 31.03.2023 (Audited)			0.1	
Total income from operations (net)	-	-			-	-	7	
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional								
and/or extraordinary items)	-8.13	-7.71	-2.25	74.38	-8.13	-7.71	-2.25	-15.50
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional	0.40	7 74	ا م م ا	74.00	0.40	7 74	0.05	45.50
and/or extraordinary items)	-8.13	-7.71	-2.25	74.38	-8.13	-7.71	-2.25	-15.50
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	-8.13	-15.87	-2.25	45.56	-8.13	-15.87	-2.25	-44.32
Total Comprehensive Income for the period [Comprising	-0.13	-15.67	-2.20	45.50	-0.13	-13.67	-2.23	-44.32
Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other								
Comprehensive Income (after tax)	-8.13	-15.87	-2.25	45.56	249.79	288.69	174.16	716.80
Paid up Equity Share Capital	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the								
Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-346.70		-	-	2703.67
Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations)								
Basic :	0.12	0.23	0.03	0.65	3.55	4.07	2.47	10.15
Diluted:	0.12	0.23	0.03	0.65	3.55	4.07	2.47	10.15

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website: http://www.bseindia.com and also on the Company's website: http://www.fortuneinternational.in. For FORTUNE INTERNATIONAL LTD

> (Nivedan Bharadwaj) **Managing Director**

(DIN: 00040191)

Tender Notice No.: CKP-EAST-23-24

S. E. RAILWAY - TENDER

30, dated 14.08.2023. e-Tender against Open Tender is invited by Divisional Railway Manager (Engg), Chakradharpur S.E.Railway for & on behalf of the President of India for the following work Manual offers are not allowed against this tender and any such manual offer received shall be ignored. Name of work Nimpura - Tatanagar Jn. (UP) - Through Sleeper Renewal(P)17.015 TKM at Km 234,020 to 251,035 (UP) by PQRS Method. Tender value: ₹ 2,35,13 676.80. EMD : ₹ 2,67,600/-. Cost of Tender form: 0.00. Date of opening 07.09.2023. The tender can be viewed at Web site http://www.ireps.gov.in The tenderer/bidders must have Class-III Digital Signature Certificate & must be registered under on IREPS Portal. Only registered tenderer/bidder can participate on e-tendering, e-Tender Forms shall be issued free of cost to all tenderers (Authority - Rly. Bd.'s letter No. 2020/CE I/CT/3E/GCC/Policy dtd. 16.07.2020)

(Rs. in Lakhs)

NOIDA TOLL BRIDGE COMPANY LIMITED

Regd. Office: Toll Plaza, Mayur Vihar Link Road, New Delhi - 110 091 Tel: 0120-2516495 Fax: 0120-2516440 CIN Number: L45101DL1996PLC315772 Website: www.ntbcl.com Email: ntbcl@ntbcl.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

	S 1717	STANDALONE							
SI. No.	Particulars		Quarter ende		Year ended	Quarter ended			Year ended
NO.		30.06.2023 Unaudited	31.03.2023 Audited	30.06.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited	30.06.2023 Unaudited	31.03.2023 Audited	30.06.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Total Income from Operations	375.33	522.85	650.73	2,681.83	375,41	523.38	650.76	2,682.84
11	Profit/(Loss) for the period before taxation	(916.62)	(1,010.52)	(881.24)	(3,527.51)	(919.14)	(1,008.69)	(882.54)	(3,512.90)
111	Net Profit/(Loss) from Continuing operations	(916.62)	(1,010.52)	(881.24)	(3,527.51)	(919.14)	(1,008.83)	(882.54)	(3,513.25)
IV	Total Other Comprehensive Income for the period	0.29	(0.63)	(0.47)	1.16	0.38	(1.09)	(0.39)	1.51
٧	Total Comprehensive Income for the period	(916.33)	(1,011.15)	(881.71)	(3,526.35)	(918.76)	(1,009.92)	(882.93)	(3,511.74)
VI.	Paid-up equity share capital (Face Value Rs 10)	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50
VII	Reserve (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	N/A	N/A	N/A	5,003.13	N/A	N/A	N/A	4,998.40
VIII	Earning Per Share (Rs.)	4 8							
	Basic	(0.49)	(0.54)	(0.47)	(1.89)	(0.49)	(0.54)	(0.47)	(1.89)
	Diluted	(0.49)	(0.54)	(0.47)	(1.89)	(0.49)	(0.54)	(0.47)	(1.89)

Tax (Appeals).

Place: Noida

Date : August 14, 2023

financialexp.epapr.in

- The above results have been subjected to a limited review by the statutory auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 14, 2023.
- The Hon'ble High Court of Allahabad has, vide its judgement dated October 26, 2016, on a Public Interest Litigation filed in 2012 (challenging the validity of the Concession Agreement and seeking the Concession Agreement to be quashed) directed the Company to stop collecting the user fee holding the two specific provisions relating to levy and collection of fee to be inoperative, but refused to guash the Concession Agreement. Consequently, collection of user fee from the users of the NOIDA bridge has been suspended from October 26, 2016, against which the Company has filed a Special Leave Petition (SLP) before the Hon'ble Supreme Court of India seeking an interim stay on the said judgment.

On November 11, 2016, the Hon'ble Supreme Court issued its Interim Order, denying the interim stay and sought assistance of CAG to verify whether the 'Total Cost' of the Project in terms of the Concession Agreement had been recovered or not by the Company. The CAG has submitted its report to the Hon'ble Supreme Court and the bench has on September 14, 2018, directed that the report submitted by the CAG be kept in a sealed cover.

The Special Leave Petition (SLP) is still pending for final adjudication in the Hon'ble Supreme Court. The Company has also notified NOIDA that the Judgement of the Hon'ble Alfahabad High Court, read with the Interim Order of the Hon'ble Supreme Court of India constitutes a 'change in law' under the Concession Agreement and submitted a detailed proposal for modification of the Concession Agreement, so as to place the Company in substantially the same legal, commercial and economic position as it was prior to the said change in law. Since NOIDAdid not act on the proposal, the Company had sent a notice of arbitration to NOIDA.

The Arbitral Tribunal has been constituted and both, the Company and NOIDA, have submitted their claims and counter claims. Further, NOIDA had filed an application under Section 16 of the Arbitration and Conciliation Act, 1961 on the maintainability of the arbitration proceedings which was rejected by the Arbitral Tribunal vide order dated August 10, 2018. NOIDA had filed an application in the Hon'ble Delhi High Court, under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1961, challenging the Arbitral Tribunal Order dated August 10, 2018, which has been disposed off by the Hon'ble Delhi High Court on January 31, 2019, without any relief to NOIDA.

NOIDA has also filed an application for directions before the Hon'ble Supreme Court, seeking a stay on the arbitral proceedings. On April 12, 2019, the Hon'ble Supreme Court directed a stay on the Arbitral proceedings.

On January 31, 2020, the Company filed an application before the Hon'ble Supreme Court for vacation of the interim stay granted vide order dated April 12, 2019. In view of the outbreak of COVID-19, the functioning of the Hon'ble Supreme Court was limited to urgent matters only. Pursuant to the filing of letter of urgency, the matter was heard by the Hon'ble Supreme Court on September 21, 2020, October 5, 2020, November 18, 2020, January 20, 2021, March 16, 2021, April 15, 2021, July 26, 2021, August 10, 2021, September 8, 2021 and subsequently posted for October 26, 2021.

Meanwhile; the Company, on October 4, 2021, received a final notice of demand dated September 30, 2021, from NOIDA, wherein NOIDA raised an alleged demand of Rs 26.05 crores payable by the Company within three days of receipt thereof, failing which NOIDA threatened to remove all advertisement displays on the NOIDA side of the DND Flyway. On receipt of the said notice, the Company filed an interim application on October 4, 2021, before the Hon'ble Supreme Court. Based on the Letter of Urgency/ Mentioning filed by the Company, the matter was listed for hearing on October 26, 2021. Inspite of the Company informing all the developments at the Hon'ble Supreme Court to NOIDA, the NOIDA authorities unlawfully removed all the advertisement displays from the NOIDA side of the DND Flyway on October 14, 2021.

Further, on October 26, 2021, the matter was not taken up for hearing by the Hon'ble Supreme Court due to paucity of time. The Company once again physically mentioned the Urgency before the Hon'ble Supreme Court on October 28, 2021 and the matter was listed for hearing on November 9, 2021 and subsequently was posted for hearing on December 1, 2021 and December 7, 2021. Subsequently, on December 9, 2021, the matter was mentioned and was heard by the Hon'ble Supreme Court on December 15, 2021, January 6, 2022 and January 10, 2022. On January 19, 2022, the Hon'ble Supreme Court disposed the interim application filed on October 4, 2021, with the direction that the Company be permitted to put up outdoor advertisement on payment of Rs 125 per square feet per month, in advance, subject to the outcome of the SLP of 2016 filed by the Company.

The SLP was posted to March 29,2022, for final disposal, and thereafter was posted on May 10, 2022, August 23, 2022, October 18, 2022, November 2, 2022 and January 10, 2023, but could not be taken up due to paucity of time on all ocassions. Subsequently, the matter was heard on July 27, 2023 and has now been fixed for September 5, 2023. In the meanwhile, the Hon'ble Supreme Court has requested the learned Additional Solicitor General of India to examine the report submitted by the CAG and assist the Hon'ble Supreme Court on the said fixed date.

Based on a legal opinion and reliance placed by the Board of Directors on the provisions of the Concession Agreement (relating to compensation and other recourses), the Company is confident that the underlying values of the intangible and other assets are not impaired.

The Company continues to fulfil its obligations as per the Concession Agreement, including maintenance of Project Assets.

On September 20, 2021, the Company received an assessment order from the Income Tax Department u/s 143(3) r.w.s. 144B of the Income Tax Act, 1961, for Assessment Year 2018-19, wherein a demand amounting to Rs.46.23 crores has been raised, primarily on account of valuation of land, by treating land as a revenue subsidy. The Company has on September 30, 2021, requested the Assessing Officer to keep the penalty proceedings in abeyance and has filed an appeal on October 19, 2021, with the

Commissioner of Income Tax (Appeals) and National Faceless Appeal Centre (NFAC), against the aforesaid assessment order. During December 2019, the Company had received an assessment order from the Income Tax Department u/s 143(3) of the Income Tax Act, 1961, for Assessment Years 2016-17 and 2017-18, wherein a demand of Rs.357 crores and Rs 383.48 crores respectively was raised, based on the historical dispute with the Tax Department, which is

primarily on account of addition of arrears of designated returns to be recovered in future, valuation of land and other recoveries. The Company has filed an appeal with the first level Appellate Authority. With the transition to Faceless Appeals, as introduced vide Faceless Appeal Scheme, 2020, both the appeals have been transferred to the NFAC. The Company has also received a Show Cause Notice, dated May 15, 2021, u/s 270A of the Income Tax Act, 1961, from the NFAC for Assessment Years 2016-17 and 2017-18. However, the Company has requested that the penalty proceedings be kept in abeyance as the appeals on merits are currently pending before the Commissioner of Income

The Income Tax Department has, in earlier years, raised a demand of Rs.1,340.03 crores, which was primarily on account of addition of arrears of designated returns to be recovered in future from toll and revenue subsidy on account of allotment of land. Pursuant to the receipt of order from CIT(A) on April 25, 2018, the Company has received a notice of demand from the Assessing Officer, Income Tax Department, New Delhi, in respect of Assessment Years 2006-07 to 2014-15, giving effect to the said order from CIT(A), whereby an additional tax demand of Rs.10,893.30 crores was raised. The enhancement of the demand was primarily on account of valuation of land. The Company has filed an appeal along with the stay application with Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). The matter was heard by ITAT on December 19, 2018, January 2, 2019 and February 6, 2019 and based on NCLAT Order dated October 15, 2018, ITAT adjourned the matter sine die, with directions to maintain status quo

Further, in November 2018, the CIT(A), Noida, passed a penalty order for Assessment Years 2006-07 to 2014-15, based on which the Assessing Officer Delhi, imposed a penalty amounting to Rs.10,893.30 crores in December 2018. The Company has filed an appeal, along with a stay application with the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). The matter was heard by the ITAT on March 29, 2019 and May 3, 2019, which has adjourned the matter sine die, with directions to maintain status quo.

On April 21,2022, the Company filed an application for early hearing before Hon'ble ITAT and subsequently the matter was heard by ITAT on May 6,2022. The appeals on merits along with the stay application were posted for hearing on July 21,2022 and October 20,2022, however the matter couldn't be taken up since the Special counsel appointed by the Department sought the adjournment and the matter was listed for hearing on January 25,2023.

On January 25,2023 and March 15,2023, the same Learned members of the Hon'ble ITAT were presiding for two different benches and due to the paucity of time the matter could not be taken up. Since the appeals are covered by the stay, accordingly at the request of the Company's Counsel, the Hon'ble ITAT directed the department for no coercive action till the next date of hearing i.e June 5,2023.

The Company on June 5, 2023 requested the Hon'ble ITAT for two clear dates to argue the matter and requested for no coercive action till the next date of hearing i.e. July 26, 2023. Accordingly, the matter was heard, argued and counter argued on July 26, 2023, August 1, 2023 and was concluded on August 2, 2023. Consequently, vide its Order dated August 8, 2023, the Hon'ble ITAT has pronounced its judgment for Assessment Years 2006-07 to 2011-12, wherein the appeals of the Revenue were dismissed and appeal of Company was allowed, thus addressing about 72% of the total demand in appeal with the ITAT of Rs.23,127 crores. For pending appeals pertaining to Assessment Years 2012-13 to 2014-15, the next date of hearing has been fixed as October 11, 2023.

In terms of an affidavit filed by the Ministry of Corporate Affairs with the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) on May 21, 2019, the cut-off date of October 15, 2018 ("Cut-off date") was proposed. The Hon'ble NCLAT vide its Order dated March 12, 2020, has approved the revised Resolution Framework submitted by the New Board along with its amendments. In the said Order, Hon'ble NCLAT has also approved October 15, 2018 as the 'Cut Off' date for initiation of resolution process for IL&FS and its group companies, including the Company. Accordingly, the Company has not provided for any interest on all its loans and borrowings with effect from October 15, 2018 ("Cut-off date").

- In terms of the License Agreement dated August 23, 2018 and November 1, 2018 and addendum thereto dated July 1, 2019, entered into with the erstwhile Licensee, the Company has terminated the said Contract as per the provisions thereof. The erstwhile Licensee has initiated an Arbitration proceeding against the Company. The matter with regard thereto has been heard by the Learned Arbitrator on December 6, 2022, December 9, 2022, December 15, 2022, January 21, 2023, February 1, 2023, February 13, 2023, March 3, 2023, March 11, 2023, May 4, 2023, July 7, 2023 and has now been posted for hearing on August 17, 2023. The Company also challenged the order of the Arbitrator dated March 3, 2023, requiring the company to submit a fixed deposit of Rs 5 crores with the Arbitrator till the final disposal of the matter, in the Hon'ble HC of Delhi and has been able to obtain a stay on the said order of the Arbitrator.
- The re-opening of the books of accounts, investigations by Serious Fraud Investigation Office ("SFIO") and other regulatory agencies and forensic examination by Grant
- Thornton India LLP, which is under process for certain group entities does not have any impact on the financial statements/operations of the Company. The Company has only one business segment and therefore reporting of segment wise information is not applicable.
- The figures for the quarter ended March 31, 2023, are the balancing figures between the audited figures for the year ended March 31, 2023, and the published year to date
- figures upto nine months ended December 31, 2022, which have been subjected to a limited review by the statutory auditors. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirement) Regulation 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Company, National Stock Exchange of India Limited and
- BSE Limited at www.ntbcl.com, www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively. Previous period/ year figures have been regrouped / reclassified wherever necessary.

For and on behalf of the Board of Directors

Dheeraj Kumar **Executive Director** Rajiv Jain DIN no. 07046151 Chief Financial Officer

SPACE INCUBATRICS TECHNOLOGIES LIMITED

REGD. OFF.: PAWAN PURI, MURADNAGAR, DISTT. GHAZIABAD (U.P.) CIN: L17100UP2016PLC084473, Phone: 01232-261288

Web: www.spaceincubatrics.com, email: spaceincubatrics@gmail.com

STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

ENDED 30.06.2023 CONSOLIDATED **Particulars** 3 months Year 3 months 3 months Year 3 months ended ended ended ended ended ended 30.06.2023 31.03.2023 30.06.2022 0.06.2023 31.03.2023 30.06.2022 Audited Unaudited Inaudited Audited Unaudited Unaudited Total income from operations 13.41 56.36 15.86 13.41 56.36 15.86 Net Profit / (Loss) for the period (before -4.321.11 -2.43-4.320.85 -2.43Exceptional Items and tax) -3227.87-527.70Net Profit / (Loss) for the period before tax (after -4.32-2.43-4.32-2.43Exceptional items) Net Profit / (Loss) for the period (after tax and -4.32-3227.78-2.43-4.32-527.61-2.43Exceptional items) Total Comprehensive Income for the period -4.32 -3227.78-2.43-4.32-527.61-2.43[Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)] Paid-up equity share capital (Face value of ₹10/-) 3460.92 3460.92 3460.92 3460.92 3460.92 3460.92 Other Equity -2562.64-2562.64 Earning Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) (a) Basic -0.01-9.33-0.01-0.01-1.52-0.01-0.01 -0.01-0.01-1.52(b) Diluted -9.33-0.01

NOTES:- 1. The above Unaudited Quarterly financial results as reviewed by the Audit Committee were approved by the Board of Directors in its meeting held on 14.08.2023. The Statutory Auditors have expressed an unqualified and unmodified audit opinion in its Limited Review Report. 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchange website : www.bseindia.com & Company's website www.spaceincubatrics.com. SPACE INCUBATRICS TECHNOLOGIES LTD.

Sd/-(Nishant Mittal) Place: Muradnagar **Managing Director** Dated: 14.08.2023 DIN: 02766556

UCO Bank (For Immovable Property) Govindpuri, Ranipur, Haridwar. Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice/s on the dates mentioned against each account calling upon the respective Borrowers/Guarantors/Mortgagors to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/ date of receipt of the said notice(s). The Borrowers/Guarantors/Mortgagors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/Guarantors/Mortgagors and the public in general that the undersigned has taken Physical Possession of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the dates mentioned against each property. The Borrowers/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of UCO Bank for the amounts and interest thereon. The

Borrowers/Guarantors/Mortgagors attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time

available, to redeem the secured assets.

Date: 14.08.2023

under for your information.

S. No.	Name of the Branch/Borrower/ Guarantor	Description of Mortgaged Immovable Property	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount outstanding as on the date of demand notice
	Satish Kumar & Smt. Rachna Singh W/o. Sh. Mukul Agarwal Address: A-5, Ram Nagar Gali, Jwalapur, Tehsil & Distt. Haridwar — 249407, Uttarakhand having Kharsa No-226. Sati Kund, Kankhal, Gr. in bahi no-01 .zild 3199 .pages 47 to 72. serial Agarwal S/o Late Sh. Satish Kumar Add.: A 5, R	Flat on first floor measuring 500 sq fts or 46.47 sq. mtr (East- 40 feet, West-40 feet. North- 12 feet and 6 inches, Flat on first floor measuring (East- 40 feet, West-40 feet. North- 12 feet and and 6 inches with two rooms, a kitchen, a am Jagjeetpur, Jwalapur, Tehsil and District Hari no-8154 dated 22.10.2014 in the office of sul am Nagar, Gali Jwalapur, Haridwar, Pin- Uttarak mmon Way West: - Balcony North: Balcony South	15.02.2022 500 sq fts or I 6 inches, S bathroom v dwar-24940 b-registrar H hand-24940	South- 12 feet with balcony) 17. registered Iaridwar in fav 17, Latitude-2	16,07,439.53 + Other Charges, further interest w.e.f. 30.12.2021 vour of Mr. Mukul 9.91"NLongitude-

केन हा बैंक Canara Bank **Demand Notice**

Authorised Officer, UCO Bank

Regional office: Mathura. िसिडिकेट Syndicate Notice Under Section-13(2) of The Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement

Place: Haridwar

of Security Interest Act, 2002. Whereas at the request of you (below mentioned borrowers or/and guarantors) Branch Coming Under Canara Bank Regional office: Mathura, had granted Cash Credit Facility against scheduled property, creating security interest in favour of the bank. The particulars of property mortgaged, by you by way deposit of title deeds creating security interest in favour of the bank are mentioned hereunder, As you have failed to discharge the debut due to the bank, the below mentioned loan account has been classified as Non-Performing Asset as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India. As the Demand Notice sent to you by Registered Post calling upon you to discharge the debt due to Bank were returned, unserved, we are publishing contents of demand notice as

Name of Borrowers/ Demand Demand Notice **Description of Properties Guarantors & Address Demand Notice** Branch:- RAYA, MATHURA Borrower: Shri Premvir Singh S/O Shri Hardam A residential house built on Plot No. 67 B(part) Block B, Rs. Singh Address 1: Village -Hasanpur Tehsil -Mant Puspanjali Upwan Colony, in the Khasara No. 347, Mauza 17,34,008.52 Mathura-281205, Address 2: 257, C Block Palikheda Tehsil & Zila Mathura, Area 60.19 Sgmt. Owned + 18,728.70 Pushpanjali Upvan Pali Khera, Mathura - 281004 by Sri Premvir Singh S/0 Sri Hardam Singh and Sri Pramod + intt. & other Co-Borrower: Shri Pramod Kumar Chaudhary Kumar S/0 Sri Hardam Singh. Boundaries are as under: expenses S/O Shri Hardam Singh R/o Village -Hasanpur East: Plot No. 65 Block B, West:-Rest part of plot no. 67 Tahsil –Mant. Mathura-28120 Block B, North :-Plot No. 66 Block B, South :- Road 7.50 Mtr Wide. Borrower: 1. Shri Rajendra Agrawal S/o Jagdeesh Residential property situated at inside Khasra no Rs. Prasad, 2. Shri Deepak Agrawal S/O Sh Rajenda Mauja- Saras, Teh- Mahavan, Dist- Mathura Area- 150.50 16,54,764.65 Agrawal, both R/O House No 169 Sadabad Road, Sq Mt., Owned by Rajendra Agrawal S/O Jagdeesh Prasad + intt. & other Raya, Dist- Mathura, Uttar Pradesh, 281204, Boundries- As per deed: East- Plot Ramesh Chand, expenses Guarantor: Sh Jagmohan Agrawal S/O Sh Dinesh West- Plot Mahaveer, North- Rasta 20Ft wide, Souh- Plot of Agrawal, R/o Opp Cinema Hall, Sadabad Road, Zasa walon ka. Raya, Dist- Mathura, Uttar Pradesh, 281204 Residential property situated at inside Khasra no 1Mi, Borrowers: 1. M/s Singhal Seeds and Pesticide Rs. Prop. Shri Deepak Agrawal S/O Sh Rajenda Mauja- Saras, Teh- Mahavan, Dist- Mathura. Area- 150.50 5,88,612.14 Agrawal, Sadabad Road, Raya, Dist- Mathura, Sa Mt., Owned by Rajendra Agrawal S/O Jagdeesh + intt. & other Uttar Pradesh, 281204, 2. Shri Deepak Agrawal Prasasd. Boundries- East- Plot Ramesh Chand, West- Plot expenses S/O Sh Rajenda Agrawal, Guarantor: Shri Mahaveer, North- Rasta 20Ft wide, Souh- Plot of Zasa Raiendra Agrawal S/o Jagdeesh Prasad both R/O walon ka. House No 169 Sadabad Road, Raya, Dist-Mathura, Uttar Pradesh, 281204

if the aforementioned borrowers/guarantors/mortgagor fails to repay the above mentioned amount due by you with future interest and incidental expenses, costs as stated above in terms of this notice under section 13(2) of SARFAESI Act, within 60 days from the date of publication of this notice, the bank will exercise all or any of the rights detailed under Sub-section (4) of sanction 13 of SARFAESI Act and other applicable provision of the said Act. This notice is without Prejudice of the Bank's right to initiate such other actions or legal proceedings, as it deem necessary under any other provisions of law.

Dated: 15.08.2023 Place- Mathura **Authorised Officer**

South West Pinnacle

SOUTH WEST PINNACLE EXPLORATION LIMITED CIN-L13203HR2006PLC049480, Email ID: secretarial@southwestpinnacle.com Regd & Corp Off: Ground Floor, Plot No.15 Sector-44, Gurgaon-122003

			STANE	ALONE			CONSO	LIDATED	
S. NO.	PARTICULARS	C	Quarter ende	d	Year Ended	C	Quarter ende	d	Year Ended
NO.	IANTIOLANO	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2022 Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.202 (Audited
1.	Total income from operations	2342.48	3849.69	2631.97	12809.25	2350.53	3885.49	2631.97	12845.05
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	37.90	420.84	251.72	1105.18	45.95	446.79	251.70	1130.98
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items) items and/or item Extraordinary items)/Profit or loss of JV	37.90	420.84	251.72	1105.18	46.19	446.48	240.60	1170.03
4.	Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra- ordinary items)	28.17	333.00	183.87	832.17	36.46	373.40	172.75	897.02
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(Loss) for the period (after tax) and Other	07.74	222.02	400.74	040.75	00.00	070.40	470.00	040.00
6.	Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital	27.74 2790.24	333.03 2790.24	183.74 2790.24	848.75 2790.24	36.03 2790.24	373.43 2790.24	172.62 2790.24	913.60 2790.24
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	2130.24	8982.03	-	-	-	8581.57
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/-each) (for continuing operations)-								
	Basic:	0.10	1.19	0.66	2.98	0.13	1.34	0.62	3.21
	Diluted:	0.10	1.19	0.66	2.98	0.13	1.34	0.62	3.2

- The above results are an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter ended on June 30, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Audited Financia Results is available on the Stock Exchanges website i.e. (www.nseindia.com) and on the Company's website (www.southwestpinnacle.com.)
- Previous Years/ Quarterly figures have been regrouped/rearranged, wherever necessary.
- The results for the guarter ended on June 30, 2023 are in Compliance with Indian Accounting Standards (IND-AS) as notified by the Ministry of Corporate Affairs. 4. The above result were reviewed by the Audit Committee and were approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on August 14, 2023.

On Behalf of the Board of Directors South West Pinnacle Exploration Limited

Vikas Jain **Chairman & Managing Director**

DIN: 0004921

Place-Gurugram **Date- August 14, 2023**

New Delhi

स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लि0 पंजी0 कार्यालयः पवनपुरी, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद (यू.पी.) CIN: L17100UP2016PLC084473, फोन: 01232-261288, वेबसाइट: www.spaceincubatrics.com, ई-मेल: spaceincubatrics@gmail.com

30 जन 2023 को समाप्त तिमाही हेत अलेखापरीक्षित वित्तीय पथक्कत एवं समेकित परिणाम (क्यार में)

爾.	विवरण		पृथक्कृत		समेकित			
सं.	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	समाप्त तिमाडी 30.06.2023 अलेखापरिक्षित	समाप्त वर्ष 31.03.2023 लेखापरिक्षित	समाप्त तिमाही 30.06.2022 अलेखापरिक्षित	समाप्त तिमाही 30.06.2023 अलेखापरिक्षित	समाप्त वर्ष 31.03.2023 लेखापरिक्षित	समाप्त तिमाही 30.06.2022 अलेखापरिक्षित	
1.	संचालन से कुल आय	13.41	56.36	15.86	13.41	56.36	15.86	
2.	शुद्ध लाम/(हानि) अवधि हेतु (अपवाद मद तथा कर से पूर्व)	-4.32	1,11	-2.43	-4.32	0.85	-2.43	
3.	शुद्ध लाम/(हानि) अवधि हेतु तथा कर पूर्व (अपवाद नद से पश्चात)	-4.32	-3227.87	-2.43	-4.32	-527.70	-2.43	
4.	शुद्ध लाभ/(हानि) अवधि हेतु (कर पश्चात तथा अपवाद मद से पश्चात)	-4.32	-3227.78	-2.43	-4.32	-527.61	-2.43	
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु कर पश्चात लाभ/हानि शामिल करके तथा कर पश्चात अन्य व्यापक आय)	-4.32	-3227.78	-2.43	-4.32	-527.61	-2.43	
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (₹10/- का अंकित मूल्य)	3460.92	3460.92	3460.92	3460.92	3460.92	3460.92	
7.	अन्य इक्विटी	352	-2562.64	#	1 11	-2562.64	fi ses	
8.	प्रति अंश आय (१ 10/- प्रत्येक) (लगातार, सतत तथा खण्डित पृथक कार्य संचालन हेतु) (अ) मूलभूत (ब) द्रव्य	-0.01 -0.01	-9.33 -9.33	-0.01 -0.01	-0.01 -0.01	-1.52 -1.52	-0.01 -0.01	

टिप्पणियाँ-- 1. उपरोक्त अलेखापरिक्षित तिमाही वित्तीय परिणाम जैसा कि अंकेक्षण कार्य समिति द्वारा समीक्षित किए गए हैं तथा तिथि 14.08.2023 में आयोजित कम्पनी की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त थे। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने एक अप्रतिबन्धित एवं अविकृत लेखापरीक्षा राय अपनी सीमित समीक्षा रिपोर्ट द्वारा व्यक्त की है। 2. उपरोक्त परिणाम स्टाक एक्सचेंज विनियम बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीबद्धता दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 33 अन्तर्गत स्टाक एक्सचेंज में दर्ज तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार विवरण है तथा तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रपत्र प्रारूप स्टाक एक्सचेंज की वेबसाइट: www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइटः www.spaceincubatrics.com पर भी उपलब्ध है। स्पेस इंक्यबैटिक्स टैक्नालॉजीस लि0

(निशांत मित्तल) प्रबंध निदेशक

स्थानः मुरादनगर तिथि: 14.08.2023

बिन: 02766556

(र लाखाँ में)

WFLEX ZIUGGER 'A part of your daily life' CIN: L74899DL1988PLC032166 रजिस्टर्ड ऑफिस: 305, तीसरी मंजिल, भानीट कॉर्नर, पम्पोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली. 110048 फोन: +91-11-26440917, 26440925 फैक्स: +91-11-26216922 वेबसाईट: www.uflexitd.com ई-मेल: secretarial@uflexitd.com

30.06.2023 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित समेकित एवं रटेंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार

	and the same	समेकित						
क्रं० सं०	विवरण	30.06.2023 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	31.03.2023 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	30.06.2022 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)			
1.	कुल आय	327822	339351	404576	1478449			
2.	अवधि के लिए कर पूर्व लाभ / (हानि) असाधारण मदों से पहले	863	8736	47560	80605			
3.	असाधारण मद (नोट संख्या २ देखें)	38155	6583	-	15000			
4.	अवधि के लिए कर पूर्व लाभ / (हानि)	(37292)	2153	47560	65605			
5.	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)	(41625)	83	37465	48076			
6.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) गैर—नियंत्रित हित के पश्चात	(41618)	88	37449	48068			
7.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	(18332)	4263	56324	83134			
	अवधि के लिए कुल व्यापक आय निम्नानुसार संबन्धित	:						
3	होल्डिंग कंपनी का स्वामित्व	(18325)	4268	56308	83126			
	गैर-नियंत्रित हित	(7)	(5)	16	8			
8.	समतुल्य अंश पूंजी	7221	7221	7221	7221			
9.	अन्य समतुल्य, गैर-नियंत्रित हित के अतिरिक्त, पूर्व वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार	742394	742394	661435	742394			
10.	प्रति शेयर आय (₹ में) (अवार्षिकृत) मूल तरल	(57.63) (57.63)	0.12 0.12	51.86 51.86	66.57 66.57			

		11-	स्टैं डअलोन	- 50	
क्रं० सं०	विवरण	30.06.2023 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	31.03.2023 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	30.06.2022 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)
1.	कुल आय	167118	168662	169639	681701
2.	अवधि के लिए कर पूर्व लाभ / (हानि)	7294	10809	10042	31712
3.	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)	5499	8270	7518	24372
4.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	5436	8077	7354	24264
5.	समतुल्य अंश पूंजी	7221	7221	7221	7221
6.	अन्य समतुल्य, गैर-नियंत्रित हित के अतिरिक्त, पूर्व वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार	283093	283093	260995	283093
7.	प्रति शेयर आय (₹ में) (अवार्षिकृत)		11,11,00,000,000	***************************************	
500	मूल	7.62	11.45	10.41	33.75
	तरल	7.62	11.45	10.41	33.75

नोट:— 1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में जमा किए गए 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के समेकित एवं स्टैंडअलोन वित्तिय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारंकित अंश है । 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के स्टैंडअलोन एवं समेकित परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.nseindia.com, www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.uflexltd.com) पर उपलब्ध है ।

2. सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया (सीबीएन) ने जून 2023 में नाइजीरियाई विदेशी मुद्रा बाजार के अन्तर्गत संचालन में महत्वपूर्ण बदलाव और निवेशकों और निर्यातकों (आई एंड ई) विंडो पर इच्छुक क्रेता और इच्छुक विक्रेता मॉडल को फिर से प्रस्तुत किया। फलस्वरूप नाइजीरियाई नायरा में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 62% का अवमुल्यन किया है जिसके परिणामस्वरूप सब्सिडिअरि कंपनी फ्लेक्स फिल्म्स अफ्रीका प्रा. लिमिटेड, नाइजीरिया, में मौजूदा तिमाही में विदेशी मुदा में रुपये 38155/- लाख का घाटा हुआ है जिसे वर्तमान तिमाही के लिए एक असाधारण मद के रूप में दिखाया गया है ।

> कते युपलैक्स लिमिटेड हस्ता/-अशोक चतुर्वेदी (चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक) DIN - 00023452

इण्डियन ओवरसीज बैंक

रथना बिल्डिंग, यतुर्थ तल, 2, राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली-110008 कोन नंबर : 011-25758124, ई-मेल ऑईडी : lob1997@lob.in सूचना

यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) + जनसत्ता (हिंदी) में 13.07.2023 को प्रकाशित हमारे ई-नीलामी बिक्री सचना के संदर्भ में हम सचित करते हैं कि खाता मेसर्स वाराही डायमंडस एंड फाइनेंस सचना दिनांक 12.07.2023 के तहत सभी संपत्तियों की ई-नीलामी के माध्यम से जारी की गई है, जो नीलामी से वापस लिया जाता है। प्राधिकत अधिकारी. स्थान : नई दिल्ली इण्डियन ओवरमीज बैंक तिथि : 15.08.2023

Ę	्रेजीक्स्बर्धन गर्भ पंजाब एण्ड सिंध बैंक (स्टेबर्ग के मध्य)	बुकान नगर १४५, वर्ष । सनना क बास, कारावा,
100	जहाँ सेवा ही जीवन - ध्वेच है	जिला. गाजियाबाद, यूपी-201010, फोन: 0120-2773377
		कब्जा स्चना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत पंजाब एण्ड सिंध बैंक, का प्राधिकत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता / गारंटर 1. श्री उपेन्द्र कुमार आचार्य (उधारकर्ता) पुत्र स्व. श्री ज्वाला प्रसाद आचार्य, निवासी: पलैट नं. यजीएफ-2, एलआईजी, ऊपरी भतल सामने की ओर, क्षेत्रफल 37.16 वर्ग मी, प्लॉट नं ए-23, गंगा विहार, ग्राम सदल्लाबाद, प्रागना, लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, यू, पी., 2. श्रीमती जया कुमारी (सह-उधारकर्ता) पत्नी श्री उपेन्द्र कुमार आचार्य, निवासी फ्लैट नं, युजीएफ-2, एलआईजी, ऊपरी भतल सामने की ओर, क्षेत्रफल 37.16 वर्ग मी, प्लॉट नं, ए-23, गंगा विहार, ग्राम सद्दल्लाबाद, प्रागना, लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, यू.पी., 3. श्री उमेश कुमार पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद (गारंटर) निवासी एन-167, ब्लॉक एन, जे.जे. कॉलोनी, रघुवीर नगर, दिल्ली, भारत, को मांग नोटिस दिनांक 30-05-2023 को जारी किया था, जिसमें सूचना में बकाया राशि रू.

के साथ 7.75% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के अलावा , पूर्ण भुगतान की तिथि तक उधारकर्ता / गारंटर उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता / गारंटर तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 10.08.2023

11,85,592.42 (रु. ग्यारह लाख पिचासी हजार पाँच सौ बान्वे और पैसे ब्यालीस मात्र)

दिनांक 29.05.2023 तक + ब्याज + अन्य प्रभार और दिनांक 29.05.2023 से मासिक छट

उधारकर्ता / गारंटर का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया

जधारकर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन पंजाब एण्ड सिंध बैंक, (शाखाः कौशाम्बी शाखा) के प्रभार वास्ते बकाया राशि रह. 11,85,592.42 (रु. ग्यारह लाख पिचासी हजार पाँच सौ बान्वे और पैसे ब्यालीस मात्र) दिनांक 29.05.2023 तक + ब्याज + अन्य प्रभार और इसके अलावा पूर्ण भुगतान की तिथि तक दिनांक 29-05-2023 से मासिक शेष सहित 7.75% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति नं. 1: बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. एलआईजी फ्लैट नं. यू जी.एफ-02, ऊपरी भूतल, सामने की तरफ, प्लॉट नं. ए-23, ब्लॉक - ए, कॉलोनी गंगा विहार, हदबस्त, ग्राम-सादल्लाबाद, लोनी, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित, पता क्रमांक-1 एवं क्रमांक 2 के नाम पर विधिवत मूल विक्रय विलेख के माध्यम से पंजीकृत, पंजीकरण सं. 8785, जिल्द नं- 29592 बही नं. 1 में, 06-05-2015 को पृष्ठ 187 से 228 पर उप रजिस्ट्रार कार्यालय IV, गाजियाबाद के कार्यालय में पंजीकृत, चौहदी: पुरव में - प्लॉट ए 24, पश्चिम में – प्लॉट ए 22, उत्तर में – 10' चौड़ा सर्विस लेन, दक्षिण में – 40' चौड़ा रोड़ दिनांक 10.08.2023, स्थान : गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

शाखा कौशांबी (के-1226) पंजाब एण्ड सिंध बेंक दकान नंबर 14ए, वेव सिनेमा के पास, कौशांबी, जहां सेवा हो जीवन - ध्वेच है जिला. गाजियाबाद, यूपी-201010, फोन: 0120-2773377 कब्जा सूचना

(लुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि अधोहरताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभतिकरण और पनर्गठन एवं प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत पंजाब एण्ड सिंध बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता / गारंटर

 श्री मुलायम सिंह (उधारकर्ता) पुत्र लालू सिंह, निवासी: बी-2, डीआरडीओ कॉम्प्लेक्स, तिमारपुर, सिविल लाइन्स, उत्तरी दिल्ली, 2. श्री सुधीर सिंह (उधारकर्ता) पुत्र मुलायम सिंह, निवासी: बी-2, डीआरडीओ कॉम्प्लेक्स, तिमारपुर, सिविल लाइन्स, उत्तरी दिल्ली 110054, 3. श्री प्रदीप सिंह राठौड (गारंटर) निवासी प्लॉट नं. बी-2, डीआरडीओ कॉम्प्लेक्स, तिमारपुर, सिविल लाइन्स, उत्तरी दिल्ली 110054 को मांग नोटिस दिनांक 30-05-2023 को जारी किया था, जिसमें सूचना में बकाया राशि रू. 16,05,820.31 (रु. सोलह लाख पाँच हजार आठ सौ बीस और पैसे इकतीस मात्र) दिनांक 29.05.2023 तक + ब्याज + अन्य प्रभार और दिनांक 29.05.2023 से मासिक छूट के साथ 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के अलावा , पूर्ण भुगतान की तिथि तक

उधारकर्ता / गारंटर उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता / गारंटर तथा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 10.08.2023 को ले लिया है।

उधारकर्ता और गारंटर का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

जधारकर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से वेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन पंजाब एण्ड सिंध बैंक, (शाखाः कौशाम्बी शाखा) के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू. 16,05,820.31 (रु. सोलह लाख पाँच हजार आठ सौ बीस और पैसे इकतीस मात्र) दिनांक 29.05.2023 तक + ब्याज + अन्य प्रभार और दिनांक 29.05.2023 से मासिक छूट के साथ 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के अलावा, पूर्ण भुगतान की तिथि तक के अधीन होगा। अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति नं. 1: बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. सी-84, द्वितीय तल, एच आई जी ब्लॉक सी, गंगा विहार, लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति पता नं. 1 और नं. 2 के नाम पर मूल बिक्री विलेख पंजीकृत के माध्यम से विधिवत पंजीकृत, पंजीकरण सं. 3090, जिल्द नं 29178, बही नंबर 1 में, पुष्ठ 35 से 112 पर दिनांकित 18-05-2015 को उप रजिस्ट्रार कार्यालय चतुर्थ के कार्यालय में पंजीकृत, चौहदी: पूरव में -प्लॉट नं. सी-85, पश्चिम में - प्लॉट नं. सी-83, उत्तर में - 30 फीट बौड़ी सड़क, दक्षिण में -दिनांक 10.08.2023, स्थान : गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

अभिनव लीजिंग ऐंड फाइनैंस लिमिटेड

सीआईएन : एल65100डीएल1984पीएलसी018748 एस-524, प्रथम तल, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली-110092 ई-मेल : abhinavleasefinltd@gmail.com वेबसाइट : www.abhinavleasefinltd.in फोन : 011-35943509

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही परिणाम वर्ष समाप्त 30-06-2023 31-03-2023 30-06-2023 31-03-2023 (अलेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) 1 प्रचालनों से कुल आय 535.39 507.94 262.98 4305.79 शुद्ध लाभ / (हानि) कर से पहले (अपवादात्मक तथा / अथवा असाधारण मदों से पहले) 2.91 2.66 2.31 9.8 👔 अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि), कर से पहले (अपवादात्मक तथा / अथवा असाधारण मदों के बाद) 2.66 2.31 9.8 2.91 अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि), कर पश्चात (अपवादात्मक तथा / अथवा असाधारण मदों के बाद) 2.91 2.66 2.31 9.67 अवधि हेत् कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेत् 5. लाभ / (हॉनि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं। 2.91 2.66 2.31 9.67 इक्विटी शेयर पूंजी 499.80 499.80 499.80 499.80 संचेय (पनर्मल्यन संचेय छोडकर) प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य रू. 10 / – प्रत्येक) (जारी और बंद प्रचालनों हेतू) क. मूल 0.01 0.005 0.01 0.019

विस्तत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.abhinavleasefinltd.in पर उपलब्ध है। वास्ते अभिनव लीजिंग ऐंड फाइनैंस लिमिटेड

नोट : उपरोक्त विवरण स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तृत किए गए 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही हेतू वित्तीय परिणामों के

0.01

?) विक ऑग्रह वडीदा Bank of Baroda to the district of the little of the little

तिथि : 14-08-2023

स्थान : नई दिल्ली

बैंक ऑफ बड़ौदा, सब्जी मंडी शाखा 24/156 जी.टी. रोड दिल्ली-110007 ईमेल : dbsubz@bankofbaroda.co.in कर्जदार को सुचना

0.005

0.019

ममता अग्रवाल

प्रबंध निदेशक

0.01

(सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत) सन्दर्भ सं. SUBZIMANDI/13(2)/2023-24 दिनांक : 03.08.2023 1. श्रीमती बबीता विश्नोई एवं श्री अनुज विश्नोई, डब्ल्यूए-71, दूसरी मंजिल, गणेश नगर II, शकरपुर, दिल्ली-110092

1. हम अपने पत्र DB/SUBZIMANDI/206945 दिनांक 30.05.2015 का उल्लेख करते हैं जिसमें विभिन्न ऋण सुविधाओं की मंजूरी और मंजूरी की शर्तें बताई गई हैं। उपरोक्त मंजूरी के अनुसरण में आपने प्रतिभृति प्रदान करने के बाद क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया और उपयोग करना शुरू कर दिया। विभिन्न ऋण/ऋण सुविधा खातों में वर्तमान बकाया और ऐसी देयता के लिए सुजित प्रतिभृति हित इस प्रकार हैं-

सन्दर्भ : हमारी सब्जी मंडी शाखा के साथ साख सुविधाएं

सुविधा की प्रकृति तथा प्रकार	सीमा (रु. लाख में)	ब्याज की दर	22.07.2023 तक बकाया (22.07.2023 तक ब्याज सहित) तथा 23.07.2023 से भावी ब्याज, विधिक प्रभार एवं अन्य व्यय	प्रतिभूति के सिक्षप्त विवरण सहित प्रतिभूत समझौता सम्पत्ति सं. डब्ल्यूए 71 (द्वितीय तल सीलिंग लेवल तक छत के अधिकार रहित) (प्लॉट नं. 3 फ् निर्मित) के समस्त भाग का इक्विटेबल बंधक डब्ल्यूए ब्लॉक शकरपुर की आबादी में स्थित खसरा नं. 177 में से, ग्राम शकरपुर खास, इलाक
सावधि ऋण (गृह ऋण)	रु. 35.00 लाख (रुपये पैंतीस लाख)	बीआरएलएलआर (9.15%) एसपी (0.25%) + स्प्रैड (1.20%) = 10.60% वार्षिक तथा मासिक रेस्ट्स, समय-समय पर परिवर्तन के अध्यधीन तथा चूक की तिथि से 2% वार्षिक की दर से	रु. 30,19,394.81 (रुपये तीस लाख उन्नीस हजार तीन सौ चौरानबे एवं इक्यासी पैसे मात्र)	शाहदरा, दिल्ली-110092 में, माप 83.61 वर्ग मीटर, श्रीमती बबीता विश्नोई पत्नी अनुज विश्नोः के नाम पर, सीमाएं : उत्तर : अन्य का हिस्सा दक्षिण : सर्विस रोड, पूर्व :प्लॉट नं. डब्ल्यूए-72 पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति का हिस्सा

2. ऋण के पावती पत्र दिनांक 01.05.2021 में आपने बैंक के बकाया रु. 35,00,000.00 (रुपये पैंतीस लाख मात्र) तथा उस पर ब्याज, बकाया राशि रु. 3239763.62 की बैंक के प्रति देयता को स्वीकार किया है। 3. आपने ऋण के ब्याज के भुगतान में भी चुक की है जो 30.11.2022 तथा उसके पश्चात भुगतान के लिए बकाया हो गये हैं।

दण्डात्मक ब्याज

4. आपके द्वारा की गई चुक के उपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार 28.02.2023 को आपकी ऋण खाता को गैर-प्रचालन

परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। हमारे बार-बार की गई अनुरोध तथा मांगों के बावजूद आपने अधिबकाया, ऋण तथा उस पर ब्याज 5. ऊपर पैरा 1 में वर्णित विभिन्न प्रतिभृतियों द्वारा विधिवत प्रतिभृत साख सुविधाओं के संदर्भ में आपकी देयता को पूरा करने में आपकी विफलता तथा

आपकी खाता को एक गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकरण को देखते हुए हम एतद्द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आपको सूचना देते हैं तथा आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर पैरा 1 में वर्णित कुल रु. 31,93,466.00/- (रुपये इकतीस लाख तिरानबे हजार चार सौ छियासठ मात्र) तथा 23.07.2023 से भावी ब्याज एवं अन्य लागतों, प्रभारों तथा व्ययों का पूर्ण भुगतान एवं अपनी देयताओं का निस्तारण करें। हम पुनः आपको सूचित करते हैं कि यदि भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित राशि के भुगतान में आप विफल होते हैं तो हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिये स्वतंत्र होंगे। कृपया, इसका ध्यान रखें।

6. कृपया ध्यान रहे कि सम्पूर्ण भुगतान तक प्रत्येक साख सुविधा के लिये ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट दरों पर ब्याज उपचयित होती रहेगी। 7. हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम 13 की उप-धारा (13) के प्रति आकृष्ट करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से (व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त) ऊपर पैरा 1 में वर्णित प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का किसी भी रूप में अंतरण

करने से आप वंचित हैं। हम पुनः सुचित करते हैं कि उक्त अनुबंध की धारा 13(13) में शामिल उपरोक्त प्रावधान की अवज्ञा अधिनियम की धारा 29 8. हम पुन: आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रति आकृष्ट करते हैं जिसके अनुसार यदि आप सार्वजनिक नीलामी/ कोटेशन/ निविदा आमंत्रित करने/ निजी संधि के लिए सूचना के प्रकाशन की तिथि से पूर्व किसी भी समय सभी लागतों, चार्जेज तथा बैंक द्वारा वहन की गई खर्चे

के साथ बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं तो आप प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित कर सकते हैं। कृपया ध्यान रहे कि उक्त सचना के प्रकाशन के बाद आपको प्रतिभृत परिसम्पत्ति को विमोचित करने का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। . कृपया ध्यान रहे कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह-रहित है तथा इसे लिमिटेशन रहित, हमारी बकाया राशि के संदर्भ में आगे मांग करने के अधिकार सहित हमें उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों को छूट देने के रूप में नहीं माना जाएगा।

अधिकृत प्राधिकारी/मुख्य प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा

पंजाब मेशनल बैंक punjab national bankभरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

कॉर्पोरेट कॉर्यालय: प्लॉट नं. 4, सैक्टर-10, द्वारका नई दिल्ली-110075 मण्डल सस्त्रा केन्द्र, प्लॉट नं. 5, इन्सटीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुड़गाँव-122001, फोन: 0124-4788246

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

		प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की	अनुसूची				
2.0	शाखा का नाम	सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि	Augustine (Marchaele)	आरक्षित मूल्य	नीलामी	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्बेन्स	
豖.	खाते का नाम	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	बंधक अचल	ईएमडी (ईएमडी जमा करने	की	का विवरण	
सं.	1 	सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि	सम्पत्तियों का विवरण/ स्वामित्व का नाम	की अंतिम तिथि)	तिथि एवं	प्राधिकृत अधिकारी	
	कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	स्पानस्य प्रमाना	बोली वृद्धि राशि	समय	का नाम एवं संपर्क नं.	
	व्यारा चौक्- गुरुग्राम्	01,06.2022	20/1227, मुस्तिल नं. 41, किला नं. 23, 24/3, मुस्तिल नं. 46, किला नं.	रु. 109.80 लाख	05.09.2023	ज्ञात नहीं	
प्रोप. नीरर	मैसर्स सफॉयर डिजिटल प्रिंटर्स, पता: 1347, सेक्टर 23ए, गुरुग्राम—122017 प्रोप. नीरज चौधरी, पता: 180/15ए, फरीदाबाद, हरियाणा—121007 <u>और:</u> 20/1227, मुस्तिल नं. 41, किला नं. 23, 24/3, मुस्तिल नं. 48, किला नं. 3,4,7,13,14,17, वार्ड नं. 7, नूंह के रेवेन्यू इस्टेट, बस स्टैंड के पास, जिला मेवात, हरियाणा— 122002,	रुं. 63,55,69,455.88 और भविष्य का ब्याज एवं प्रभार इत्यादि	3,4,7,13,14,1,17, वार्ड नं. 7, नूंह के रेवेन्यू ईस्टेट में, बस स्टैण्ड के पास, जिला मेवात, हरियाणा — 122002 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री नीरज चौधरी से संबंधित	ছ. 10.98 লাভ্র (04-09-2023)	पूर्वांड 11.00 बजे से अपींड	दीपशिखा सिंह,	
किला नं. :		29.08.2022	PUNBGSR000706001	₹. 50,000/-	04.00 बजे	मुख्य प्रबंधक 9953494313	
गारटरः श्र श्रीमती वि	ी सुरिंदर सिंह बेदी, पताः मकान नं. 338, सेक्टर 15, फरीदाबाद, हरियाणा—121007, केरण छोकर, श्री विकास कुमार, श्री राजबीर सिंह, श्री कंवर सिंह, पताः ए—2/15, डीएलएफ सिटी फेज—1, गुरुग्राम	सांकेतिक	200000000000000000000000000000000000000	94414007/KD15417		9900494313	
हरियाणा-	08,						
श्रीमती मो	निया चौधरी, श्री आर एम चौधरी, श्रीमती कविता चौधरी, पताः 1347, सेक्टर 23ए, गुरुग्राम—122017 ग्यवती, मकान नं. 83, करना वार्ड नं. 1, फैक्ट्री एरिया समालखा, पानीपत, हरियाणा — 132101						
	पीएनबी, शाखाः एनआईटी, फरीदाबाद (016700)	01.07.2017	मकान नं. 271, क्षेत्रफल 302 वर्ग गज, खेवत / खाता नं. 561/648 का भाग, रैक्ट नं. 45,	হ. 71.31 লাভ্ <u>র</u>	12.09.2023 पूर्वांड 11.00 बजे से अर्पांड 04.00 बजे	झात नहीं	
मैसर्स जग	ामोहन शर्मा और ममता शर्मा , मकान नं: 1835 / 1650 चावला कॉलोनी दुर्गा मेडिकल स्टोर के पास भगत सिंह कॉलोनी बल्लभगढ़	क 81 60 530 दिनांक 31 05 2017 तक और भविष्य का खाज	किला नं 8/1,13/1,13/2,14/1,17/1 जोकि बोहरा पब्लिक स्कूल के पास, 33फीट रोड, भगत सिंह कॉलोनी, मौजा बल्लभगढ़, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद में रिधत, यह सम्पत्ति श्रीमती	-			
हरियाणा	121004 और मकान नं, 271 भगत सिंह कॉलीनी बल्लभगढ़ हरियाणा 121004	इत्यादि		ভ. 7.14 লাজ (11-09-2023)		किरण नरुला,	
इंडियन टू	्रम, प्लॉट नं. 36, धर्म कोटा रोड, मुजेसर फरीदाबाद हरियाणा 121005	15.09.2017	ममता शर्मा पत्नी जगमोहन शर्मा के नाम पर है। PUNB2082240014	₹. 50,000/-		मुख्य प्रबंधक	
		सांकेतिक	F0ND2002240014	**************************************		9811582458	
	াৰ্ক (076510)	15,10,2016	साम्यिक बंधक फ्री होल्ड ओल्ड प्लॉट नं. एफ-7, भूमि क्षेत्रफल 155 वर्ग गज, जिसे अब	চ. 33.39 লাভ্র	7410 11100 441	ज्ञात नहीं	
	ा पी रबर, डीसी–551 डबुआ कॉलोनी, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा 121001 गवंती देवी, प्रोपराइटर मैसर्स एस.पी. रबर, डीसी–551 डबुआ कॉलोनी, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा, 121001	रु. 40,06,199.00 & 40,81,434.00 दिनांक 30.09.2016 तक और भविष्य का स्थाज इत्यादि	मकान नं. एमसीएफ डीसी—551, क्षेत्रफल 155 वर्ग गज, जोकि मौज़ा डबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती भगवंती देवी के नाम पर है।	ক. 3.35 লা ख (11-09-2023)		किरण नरूला,	
		20.12,2016	PUNBO39070252	₹. 50,000/-	04.00 वजे	मुख्य प्रबंधक 9811582458	
100		Physical		ACCOUNTS OF		9811082408	
	फरीदाबाद (016700)	01.06.2019	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. 63, क्षेत्रफल 4835.50 वर्ग गज, साथ ही	হু, 162.98 লাজ	12.09.2023 पूर्वाह 11.00 बजे से अपीत	झात नहीं	
1. श्री. अश	क ट्रेडर्स, दुकान नं. 11, एससीओ—1 प्रथम तल, सेक्टर 16 फरीदाबाद हरियाणा 121008 शोक कुमार, एसपीआर सेक्टर 82 टॉवर नं. 7, फ्लैट नं. 802 फरीदाबाद	रु. 2,01,85,090.58 दिनांक 30.04.2019 तक और भविष्य का ब्याज इत्यादि	श्रमिक आवास प्लॉट नं. 63, क्षेत्रफल 500 वर्ग गज, स्टोन क्रशिंग जोन मोहब्ताबाद जिला-फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स डी पी शर्मा एवं कं. के नाम पर है पार्टनर श्रीमती	হ. 16.30 লা ৰ্ড্ড (11-09-2023)		किरण नरुला,	
	The street of th		नीलम गोयल और प्रदीप कुमार शर्मा के माध्यम से	Jan Derrock Company of the Company o		मुख्य प्रबंधक	
	नीलम गोंबल, मकान नं. 1763 सेक्टर 16 फरीदाबाद हरियाणा 121002 ोष कुमार शर्मा, डीजी—।।/268ए विकास पुरी नई दिल्ली	16-10-2019	PUNB20822400059	रु. 50,000/-	04.00 बज	9811582458	

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्ते : बिक्री, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियों की बिक्री जैसे है जहां है आधार पर की जा रही है। (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटिं, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई—नीलामी प्लेटफार्म वेबसाईट https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से ऊपर वर्णित दिनांकों को आयोजित की जाएगी। (4) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : www.ibapi.in, www.tenders.gov.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app & www.pnbindia.in देखें। (5) और, नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद, यह बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट (https://pnbindia.in) पर नीलामी पृष्ट पर प्रेषित करेगा। जहां ई—बिक्रे पोर्टल और बैंक के नीलामी पोर्टल पर ई—नीलामी पर रखी गई संपत्तियों का विवरण उपलब्ध है।

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूति लेन



दिनाक : 14.08.2023, रथान : गुरूग्राम

श्री. मुकेश गोयल, एसपीआर सेक्टर 82 टावर नं. 7, फ्लैट नं. 802, फरीदाबाद, हरियाणा

स्थानः नोएडा

दिनोकः 14 अगस्त 2023









